

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/442

दिनांक - 30/11/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल स्थापना दिवस पर कंपनी के 278 कर्मचारी पदोन्नत

आगामी 17 दिसंबर को लिखित परीक्षा

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने 28 नवंबर (मंगलवार) को अपने 33वें स्थापना दिवस पर कंपनी के 278 कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) की सौगात दी। कंपनी द्वारा जारी इन पदोन्नति आदेशों के साथ ही एनसीएल के उत्खनन (एक्सकेवेशन) एवं विद्युत एवं यांत्रिकी (ईएंडएम) विभागों में रिक्त आवश्यक वैधानिक पदों की संख्या भी पूरी कर ली गई है। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने पदोन्नत कर्मचारियों की हार्दिक बधाई दी है तथा उम्मीद जाहिर की है कि वे आने वाले समय में नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति से कार्य करते हुए कंपनी के लक्ष्यों को पूरा किए जाने में अहम योगदान देंगे।

सेक्योरिटी ग्रेड में 14 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। हालांकि पात्रता नहीं होने की वजह से अनुसूचित जाति-जनजाति के 42 पदों पर पदोन्नति नहीं की जा सकी है और इस कार्य को आगामी समय में पात्र कर्मों मिलने पर पूरा किया जाएगा।

बढ़ाए जाने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक श्रमशक्ति (मैनपावर) की आवश्यकताओं के मद्देनजर भी कंपनी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसी मुहिम तहत 159 पदों पर एचईएमएम ऑपरेटर कैटिगरी II की भर्ती के लिए आगामी 17 दिसंबर 2017 (रविवार) को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद पर भर्ती के लिए ओपन नोटिफिकेशन निकाला गया था।

गौरतलब है कि एनसीएल को चालू वित्त वर्ष में 91 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 91 मिलियन टन ही कोयला प्रेषण (डिस्पैच) करना है। 29 नवंबर तक कंपनी ने 58.53 मिलियन मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 61.70 मिलियन टन कोयले का प्रेषण कर लिया है। पिछले पिछले वित्त वर्ष में 29 नवंबर तक कंपनी ने 50.36 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं 51.89 51.89 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था। चालू वित्त में 29 नवंबर तक कंपनी ने पिछले पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में किए गए कोयला उत्पादन एवं प्रेषण से क्रमशः लगभग 17 प्रतिशत अधिक कोयला उत्पादन एवं 19 प्रतिशत अधिक कोयला प्रेषण किया है।

31 अक्टूबर 2017 को कंपनी की श्रमशक्ति 15134 थी।

(जनसम्पर्क अधिकारी)